



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/T/21/00081 & 00084

दिनांक: 21 September, 2021

Shri Indar,
116 Rangpuri Pahari,
Mahipalpur,
New Delhi Pin:110037,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 31 August, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.तो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Subject: Reply to RTI Queries by Shri Indar, New Delhi

1: How many maximum number of days an employee can be sent on tour?

Reply: There is no specified limit on the number of days an employee can be on tour. The duration is decided based on requirement. However, we do have a provision for long duration assignments, wherein *"In case of duration beyond 180 (One hundred and eighty) days, the Headquarters of the employee will be deemed to have been changed from his old station/place of work to the new station/place of work"*.

2: Whether there is a provision for giving weekly holidays/gazetted holidays/national holidays falls during the tour (from the start to the end of the tour) to the employee sent on official tour? If so, under what rule? If not, under which rule is it not?

Reply: No such provision is specified in our Travelling Allowance Rules.

3: It is mandatory to give off after working continuously for maximum number of days to the employee sent on tour?

Reply: No such provision is specified in our Travelling Allowance Rules.

4: How many maximum number of hours in a week can an employee sent on tour be made to work continuously? What is the provision after that?

Reply: No such provision is specified in our Travelling Allowance Rules.

5: Compensatory off or overtime in reimbursement to an employee sent on tour for having worked on a weekly holiday/gazetted holiday/national holiday falling during the tour (from the start to the end of the tour) What is the provision to give? Under which rule? If not, under which rule is it not?

Reply: No such provision is specified in our Travelling Allowance Rules.

6: Rules of tour are same or different for all executive and non-executive staff?

Reply: Our Travelling Allowance Rules are applicable to all employees, irrespective of cadre. However, entitlement on tour may differ level-wise.

